



किफ़ायती आवास

E. 102nd Street

8 E. 102nd Street, New York, NY 10029 MANHATTAN

सुविधाएं: 24 घंटे उपलब्ध लॉबी, निवासी प्रबंधक, आंगन, *फिटनेस सेंटर, *कपड़े धोने का कमरा, *साइकिल भंडारण, *पार्किंग गैरेज (*शुल्क पर उपलब्ध)

पारगमन: भूमिगत मार्ग: 4, 6 बसें: M1, M2, M3, M4, M106

कोई आवेदन शुल्क नहीं • कोई ब्रोकर शुल्क नहीं • धुआं मुक्त इमारत • पालतू जानवरों के अनुकूल इमारत

2
इस बिल्डिंग की रीमार्केटिंग New York State Homes and Community Renewal (न्यू यॉर्क स्टेट होम्स एंड कम्युनिटी रिन्यूअल) के साथ Low Income Housing Tax Credit program (लो इनकम हाउसिंग टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम) के जरिए की जा रही है।

कौन आवेदन कर सकता है?

अब वेटिंग लिस्ट फिर से भरने के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। वे व्यक्ति या परिवार जो नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध आय और परिवार में लोगों की संख्या की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को अतिरिक्त चयन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा।

निम्न के लिए इकाइयों का कुछ प्रतिशत अलग रखा गया है:

- Manhattan Community Board (मैनहट्टन कम्युनिटी बोर्ड) के 11 आवेदक(50%)

उपलब्ध इकाइयां और आय संबंधी अनिवार्यताएं

इकाई का आकार	मासिक किराया ¹	परिवार में लोगों की संख्या ²	परिवार की वार्षिक आय ³ न्यूनतम - अधिकतम ⁴
स्टूडियो	\$859	1 व्यक्ति	\$32,022 - \$37,360

¹किराए में हीटिंग सिस्टम, गर्म पानी और खाना पकाने के लिए गैस शामिल है। बिजली का भुगतान किरायेदार करता है।

² परिवार के लोगों की संख्या में वे सभी वयस्क और अवयस्क भी शामिल हैं जो आपके साथ रहेंगे। अधिकार मानदंड के अधीन।

³ पारिवारिक आय में वेतन, घंटेवार वेतन, बख्शीश, सामाजिक सुरक्षा, बाल सहायता और अन्य प्रकार की आय शामिल हैं। आय संबंधी दिशानिर्देश परिवर्तन के अधीन हैं।

⁴ सूची में वर्णित न्यूनतम आय धारा 8 या अन्य योग्य रेंटल सब्सिडी वाले आवेदकों पर लागू नहीं होगी।

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?

आवेदनों का अनुरोध इस ईमेल के माध्यम से लिखकर किया जा सकता है: ahgleasing@related.com

हमारे प्रबंधन कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से आवेदन का अनुरोध किया जा सकता है:

Related Affordable Housing Group, 330 W. 30th Street, New York, NY 10001

आवेदन का अनुरोध डाक के माध्यम से निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

Related Affordable Housing Group. Attn: E. 102nd Street Remarketing, 330 W. 30th Street, New York, NY 10001

मुख्य कार्यालय में फ़ोन करके भी आवेदन के लिए अनुरोध किया जा सकता है:

कार्यालय का फ़ोन नंबर: (646) 677-5754

इसकी अंतिम तिथि कब है?

आवेदन के अनुरोध 31 अक्टूबर, 2022 तक किए जा सकते हैं और 31 अक्टूबर, 2022 तक वापस किए जाने जरूरी हैं। 31 अक्टूबर 2022 तक पोस्टमार्क किए गए आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट NYHousingSearch.gov पर ऑनलाइन पोस्ट किया गया है।

Governor Kathy Hochul • Mayor Eric Adams • HCR Commissioner/CEO RuthAnne Visnauskas

